



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 30-11-2021

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-11-30 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-12-01	2021-12-02	2021-12-03	2021-12-04	2021-12-05
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	15.0	13.0	12.0	13.0	14.0
न्यूनतम तापमान(से.)	6.0	7.0	7.0	6.0	5.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	55	60	75	75	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	35	40	35	35
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	4.0	4.0	4.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	140	140	100	130	320
क्लाउड कवर (ओक्टा)	5	6	6	3	1

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में, 2 दिसम्बर को कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है तथा आमतौर पर मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 12.0 से 15.0 व 5.0 से 7.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 4.0-6.0 किमी/घंटे की गति से दक्षिण-पूर्व व उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है। ईआरएफएस के अनुसार, 5 से 11 दिसम्बर के दौरान राज्य में वर्षा सामान्य से कम तथा अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य रहने का अनुमान है।

सामान्य सलाहकार:

किसान भाई पिछले सप्ताह के मौसम, मौसम पूर्वानुमान और मौसम आधारित कृषि सलाह प्राप्त करने के लिए "मेघदूत ऐप" तथा आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान हेतु "दामिनी एप" डाउनलोड करें। मेघदूत व दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ताओं) से डाउनलोड किया जा सकता है। कोविड 19 को फैलने से रोकने हेतु, कृषि कार्य के दौरान भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में, 2 दिसम्बर को कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है तथा आमतौर पर मौसम साफ रहेगा।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
------	-------------------

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
गेहूँ	असिंचित दशा में बोई गई गेहूँ की फसल में आवश्यकतानुसार निराई कर खरपतवार निकाल लें तथा सिंचित फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु संस्तुत खरपतवारनाशी रसायन का प्रयोग करें।
जौ	जौ की फसल में आवश्यकतानुसार निराई कर खरपतवार निकाल लें तथा सिंचित फसल में बुवाई के 20-25 दिन पर सिंचाई कर नत्रजन की संस्तुत मात्रा में टॉप-ड्रेसिंग करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
टमाटर	थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए फिप्रोनिल 5 एस सी का 2 मिली/है0 की दर से छिड़काव करना चाहिए।
प्याज	तैयार प्याज की पौध का प्रतिरोपण करें।
गोभी	बंदगोभी जैसी बीजू फसलों में निराई-गुड़ाई कर आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।
सेब	सेब तथा गुठलीदार फलों में तना विगलन रोग की रोकथाम के लिए प्रभावित सेब तथा गुठलीदार फलों के तनों के चारों तरफ मिट्टी हटाएँ जिससे धूप की किरणें ग्रसित भाग पर पड़े। प्रभावित छाओं को हटाकर इसमें चैबटिया पेस्ट लगाकर मिट्टी से ढक दें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	इस बदलते मौसम में नवजात पशुओं में निमोनिया की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए पशुओं की आवास व्यवस्था को सुदृढ़ करें व आहार में गर्म चीजें दें।
भैंस	इस बदलते मौसम में नवजात पशुओं में निमोनिया की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए पशुओं की आवास व्यवस्था को सुदृढ़ करें व आहार में गर्म चीजें दें। भैंसों का मदकाल अक्टूबर-नवम्बर तक होता है, इसलिए इन महीनों में मादा भैंसों में मदकाल के लक्षणों का सुबह- शाम निरीक्षण करें, ताकि गर्भाधान की प्रक्रिया समय से सम्पन्न करायी जा सके।

मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह:

मुर्गी पालन	मुर्गी पालन विशिष्ट सलाह
मुर्गी	ठंड से बचाव हेतु फर्श पर पुआल, चूरा या लकड़ी की छीलन की एक मोटी (3-6") परत बिछा दें। ठंड के बचाव हेतु बुखारी/ब्रूडर स्थापित किया जाना चाहिए।